

सं. 6 : राज्य सहकारी बैंक - भारतीय रिजर्व बैंक के पास खाते रखना

(करोड़ रुपये)

नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में)/अंतिम शुक्रवार/ सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार	1990-91	2007-08	2008-09	2008					2009			
				मार्च	सितं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च 13	मार्च 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
मांग और मीयादी देयताएं												
कुल जमाराशि (1)	2,152	19,611	22,588	19,611	20,827	20,805	21,010	21,001	21,261	21,868	21,989	22,588
मांग देयताएं	1,831	6,636	8,051	6,636	7,566	6,880	7,105	7,035	7,166	7,243	7,404	8,051
जमाराशि												
अंतर-बैंक	718	1,539	1,936	1,539	1,204	1,371	1,727	1,872	1,805	1,557	1,592	1,936
अन्य	794	3,628	4,058	3,628	3,721	3,849	3,758	3,718	3,738	3,879	3,987	4,058
बैंकों से उधार	181	428	367	428	1,333	303	338	242	260	324	325	367
अन्य	139	1,041	1,689	1,041	1,309	1,356	1,282	1,202	1,362	1,483	1,499	1,689
मीयादी देयताएं	3,963	47,523	59,625	47,523	50,353	51,261	51,749	52,513	54,661	56,915	58,193	59,625
जमाराशि												
अंतर-बैंक	2,545	31,111	40,589	31,111	32,764	33,769	34,004	34,732	36,619	38,420	39,691	40,589
अन्य	1,359	15,983	18,530	15,983	17,106	16,955	17,252	17,283	17,523	17,990	18,002	18,530
बैंकों से उधार	—	8	7	8	16	8	8	7	7	7	7	7
अन्य	59	421	500	421	467	529	486	490	512	498	493	500
रिजर्व बैंक से उधार	15	—	—	—	22	—	—	19	—	—	—	—
स्टेट बैंक तथा/अथवा किसी अधिसूचित बैंक (2) और राज्य सरकार से उधार	1,861	13,988	11,879	13,988	13,340	11,214	11,639	11,322	10,338	11,462	11,232	11,879
मांग	116	3,378	3,057	3,378	3,279	3,120	3,189	2,922	2,769	3,290	3,256	3,057
मीयादी	1,745	10,610	8,822	10,610	10,061	8,094	8,450	8,400	7,570	8,172	7,976	8,822
आस्तियाँ												
उपलब्ध नकदी तथा रिजर्व बैंक के पास शेष	334	3,639	3,387	3,639	4,453	3,687	3,089	2,962	2,824	2,845	3,301	3,387
उपलब्ध नकदी	24	143	149	143	154	158	149	156	143	145	152	149
रिजर्व बैंक के पास शेष	310	3,496	3,238	3,496	4,299	3,529	2,941	2,806	2,681	2,699	3,148	3,238
अन्य बैंकों के पास चालू खाता शेष	93	486	554	486	440	449	514	377	473	413	568	554
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (3)	1,058	16,806	18,432	16,806	17,401	17,996	17,970	18,053	18,567	18,940	19,266	18,432
मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	498	7,855	15,801	7,855	7,723	10,410	12,005	11,939	10,554	13,628	14,373	15,801
बैंक ऋण (4)	2,553	17,345	18,501	17,345	17,169	16,855	16,563	17,201	18,461	18,901	18,515	18,501
अग्रिम												
ऋण, नकदी ऋण तथा ओवरड्राफ्ट	2,528	17,336	18,490	17,336	17,163	16,846	16,555	17,194	18,451	18,891	18,502	18,490
बैंक से प्राप्य (5)	5,560	32,466	27,239	32,466	32,976	29,357	28,620	28,443	27,674	27,193	26,417	27,239
खरीदे और भुनाए गए बिल	25	9	10	9	6	9	7	7	10	10	13	10
नकदी - जमा अनुपात	15.5	18.6	15.0	18.6	21.4	17.7	14.7	14.1	13.3	13.0	15.0	15.0
निवेश - जमा अनुपात	49.2	85.7	81.6	85.7	83.5	86.5	85.5	86.0	87.3	86.6	87.6	81.6
ऋण - जमा अनुपात	118.6	88.4	81.9	88.4	82.4	81.0	78.8	81.9	86.8	86.4	84.2	81.9

'सारणी संबंधी टिप्पणी' देखें।